

जन्माष्टमी के मौके पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री राधे कृष्ण मंदिर, झंडेवाला मंदिर व छतरपुर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिरों में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा

यमुनापार के ब्रह्मपुरी के हनुमान मंदिर के महंत सतीश ने बताया कि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में 12 भव्य झांकियों का आयोजन किया गया था। प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालका जी मंदिर में भी भगवान

मनाया गया। इसा तरह इस्कॉन मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से देर रात तक पहुंचते रहे। श्री राधे बिहारी मंदिर में भी भव्य झांकियों का आयोजन किया गया था और बाल कृष्ण का विशेष

दिल्ली को अभी और सराबोर करेगी बारिश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

तीन दिनों से मेहरबान रहे मानसून ने सोमवार को भी दिल्लीवासियों को निराश नहीं किया और सुबह से ही कई इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग (आइएमडी) के मुताबिक, बारिश का यह दौर मंगलवार को भी जारी रह सकता है। वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि अगले 24 घंटे तक भीषण बारिश की संभावना है और अगले 48 घंटे तक मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं।

बारिश के कारण अंडरपास और सड़कों पर जलभराव होने से काफी दिक्कत भी हुई। दिल्ली यातायात पुलिस ने टवीट कर लोगों से अपील की कि शहीद धर्म सिंह मार्ग वसुंधरा एंक्लेव, एमबी रोड पुल प्रह्लादपुर, पटपड़गंज रोड, राजधानी पार्क, मुंडका, पंजाबी बाग क्लब रोड, राजा राम कोली मार्ग, गीता कॉलोनी, देवली, बत्रा अस्पताल के सामने, यूसुफ सराय, एम्स, अरविंदो मार्ग, कालिंदी कुंज और मंकी ब्रिज के नीचे बारिश के बाद जलभराव हो गया है। इन इलाकों में जाने से बचें। अगर जरूरी काम हो तो किसी वैकल्पिक मार्ग से होकर इन इलाकों में जाएं।

वहीं सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी और सुहाने मौसम का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। बारिश का दौर जारी रहने का असर शहर के तापमान पर भी पड़ा। सोमवार का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आइएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को भी बारिश के कारण तापमान 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

सीलिंग के खिलाफ कल से न्याय युद्ध शुरू करेगी कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 सितंबर।

राजधानी दिल्ली में बीते कई महीनों से हो रही गैरकानूनी सीलिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा की

यमुनापार के ब्रह्मपुरी के हनुमान मंदिर के महंत सतीश ने बताया कि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में 12 भव्य झांकियों का आयोजन किया गया था। प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालका जी मंदिर में भी भगवान

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com Tel No.: +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the Members of SKYLINE INDIA LIMITED will be held on Friday, 28th September, 2018 at 10.00 A.M. at its Registered Office at 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 to transact the businesses mentioned in the Notice of Annual General Meeting.

The notice of AGM along with Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip have been sent in electronic form to those shareholders whose email address are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants, unless the Members have requested for hard copy of the same. Physical copy has been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mail and other permitted modes on Monday 3rd September, 2018.

Members may note that the Annual Report, AGM Notice inter alia indicating the process and manner of e-voting process, Proxy Form and Attendance Slip are available on Company's website www.skylineindia.co.in and can also be obtained from registered office of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendments Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and business may be transacted through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited. The remote e-voting period commences from Tuesday 25th September, 2018 at 9.00 a.m and ends on Thursday 27th September, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled thereafter and no e-voting will be allowed thereafter.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 21st September, 2018. Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of AGM Notice and holds such shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at admin@skylinert.com

At the AGM, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the Members as on the "cut-off date" i.e. 21st September, 2018, who have not cast their votes by remote e-voting, shall be entitled to exercise their rights to vote at the AGM through ballot paper. The members who have cast their votes through electronic means prior to the AGM may still attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

The notice of AGM containing, inter-alia, the procedure of e-voting is available on the Company's website www.skylineindia.co.in and on CDSL's website www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Notice is also hereby given that that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Friday 28th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the Shareholders at the Annual General Meeting.

For Skyline India Limited

Place: Delhi

Date: 03.09.2018

(Dinesh Kumar Shindi)

Company Secretary & Compliance Officer

बर्विन इनवेस्टमेंट एण्ड लीजिंग लिमिटेड

607, रोहित हाउस, 3, टोलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110007

सीआईएन : L65993DL1990FLC039397

ई-मेल: secretary@bervin.com, Website: www.bervin.com

28वीं वार्षिक आम सभा, पुस्तिका बंद रहना तथा ई-वोटिंग की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 28वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को प्रातः 9.30 बजे 607, रोहित हाउस, 3, टोलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110007, में नोटिस में वर्णित कार्यकलापों को निष्पादन करने के लिए होगी।

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों, अंकेक्षणों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 1 सितंबर, 2018 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com तथा नेशनल सिक्यूरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 173(1)(b) के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 1 सितंबर, 2018 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com तथा नेशनल सिक्यूरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

PUBLIC ANNO Under Regulation 6 of the Insolvency (Insolvency Resolution Process for Corporate Debtors) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF RELEVANT PA

1	Name Of Corporate Debtor	N
2	Date of incorporation of corporate debtor	C
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	C
4	Corporate Identity Number of Corporate Debtor	U
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	R
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	3
7	Estimated date of closure of insolvency resolution Process	2
8	Name and Registration Number of the Insolvency Professional acting as Interim Resolution Professional	R
9	Address and E-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the Board	R
10	Address and E-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional, if different from those given at SL No.9	R
11	Last date for submission of claims	1
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	N
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	W

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT) has commenced the insolvency resolution process of MOODS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED, on 30th August 2018.

The creditors of MOODS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED are requested to submit a proof of their claims on or before 13th September 2018 to the Insolvency Professional at the address mentioned against item 13 of the above table. The financial creditors shall submit their proof of claims to the Insolvency Professional. A financial creditor belonging to a class, as listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class, shall submit the proof of claim against entry No. 13 to act as authorised representative of the class. Submission of false or misleading proofs of claim

Date : 01st September 2018
Place : New Delhi

हिन्दुस्तान अर्बन

सीआईएन : एलड
पंजीकृत कार्यालय : कच्
नई दिल्ली
ई-मेल : investor@hindustanarbit.com
वेबसाइट : www.hindustanarbit.com

58वीं वार्षिक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों, अंकेक्षणों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 1 सितंबर, 2018 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com तथा नेशनल सिक्यूरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 173(1)(b) के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित) का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण / भौतिक रूप से भेजने का कार्य 1 सितंबर, 2018 को पूर्ण कर लिया गया था। यह कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com तथा नेशनल सिक्यूरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

16 NATION

FINANCIAL EXPRESS

tential
d F-16
ckheed

ortance
ly, Mat-
the US
ne Indo-

clouds the prospects for US-India cooperation. The US plans to reimpose sanctions on purchases of Iranian oil in November, after President Donald Trump quit the 2015 multinational nuclear deal with Iran. Meanwhile, a 2017

Delhi Policy Group think tank. "It will be the test of our nascent Indo-Pacific partnership to be able to walk this fine line together, and to find adjustments that take into consideration American interests and Indian interests."

ed to buy us polls'

ort read.
to it, an electronic voting (EVM), which includes a control unit (CU), a ballot unit (BU) and a power supply unit (PSU) at about ₹33,200. The EC has informed that an estimated cost of about ₹4,555 crore will be required for procurement of EVMs for the 2024 and 2029 elections. "Thereafter, ₹3 crore will be required for new EVMs for the proposed 2034 elections in 2034," it said. It also said that the expenditure on EVMs is calculated on the basis of the number of polling stations. At larger polling stations, the polling staff may be required to view an additional EVM, it said.

ackdown on upporters

(police). More than 500 people were in custody in the last one year in Delhi," the DG said.

SKYLINE INDIA LIMITED
Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the Members of **SKYLINE INDIA LIMITED** will be held on Friday, 28th September, 2018 at 10.00 A.M. at its Registered Office at 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 to transact the businesses mentioned in the Notice of Annual General Meeting.

The notice of AGM along with Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip have been sent in electronic form to those shareholders whose email address is registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants, unless the Members have requested for hard copy of the same. Physical copy has been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mail and other permitted modes on Monday 3rd September, 2018.

Members may note that the Annual Report, AGM Notice inter alia indicating the process and manner of e-voting process, Proxy Form and Attendance Slip are available on Company's website www.skylineindia.co.in and can also be obtained from registered office of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendments Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and business may be transacted through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited. The remote e-voting period commences from Tuesday 25th September, 2018 at 9.00 a.m. and ends on Thursday 27th September, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled thereafter and no e-voting will be allowed thereafter.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 21st September, 2018. Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of AGM Notice and holds such shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at admin@skylineindia.com.

At the AGM, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the Members as on the "cut-off date" i.e. 21st September, 2018, who have not cast their votes by remote e-voting, shall be entitled to exercise their rights to vote at the AGM through ballot paper. The members who have cast their votes through electronic means prior to the AGM may still attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

The notice of AGM containing, inter-alia, the procedure of e-voting is available on the Company's website www.skylineindia.co.in and on CDSL's website www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Friday 28th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the Shareholders at the Annual General Meeting.

For Skyline India Limited
Sd/-

(Dinesh Kumar Shindi)

Place: Delhi
Date: 03.09.2018

Company Secretary & Compliance Officer

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date (21st September, 2018), may obtain the login ID and password by sending a request to the Members, who have not cast their vote through Remote e-voting facility at the AGM. The facility for voting through Poll paper shall be made available at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting facility also attend the AGM but shall not be entitled to exercise their rights to vote at the AGM through Poll paper. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual for Members available at www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800-222-9901. Managing Director Manish Vimal Agarwal (DIN: 05178502), Managing Director 0500 or through e-mail at cjmd10@gmail.com from Monday to 6:00 p.m.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM, declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of NSDL i.e. www.evotingindia.com, besides being displayed at the Exchange.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM (AGM) IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. In Order to be effective, must be deposited at the Registered Office, duly completed and signed, not less than 48 (forty-eight) hours before the date of the AGM.

By order
F/-

Place: Kolkata
Date: September 4, 2018



SAB EVENTS AND GOVERNANCE NO
SAB GROUP Media Ltd

CIN: L22222MH2014PLC2548

Regd. Off.: Unit No. 3/65, Sukh Shanti, N

Cooper-Hospital Lane, Opp. PNB, Juhu, Mum

Tel.: 022-2624 6701; Fax: 022-2623

E-mail ID: cs@governancenow.com; Website: www.governancenow.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 5th (Fifth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on 25th September, 2018 at 2:45 p.m. at GMS Band Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053; to transact the business as set out in the Notice of 5th AGM. The same is available on the company viz. www.governancenow.com and NSDL www.evotingindia.com.

The company has completed the dispatch of the Annual Report for the financial year ended 31st August, 2017. Members through permitted modes by Saturday, 17th August, 2017.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Register of Members and Share Transfer Book, the Register of Members and Share Transfer Book will remain closed from **Wednesday, 19th September, 2018 to Tuesday, 25th September, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 5th AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company has provided E-voting facility to its Member electronically, on all the resolutions as set forth in the Notice of 5th AGM from a place other than the venue of the AGM. The company has engaged the services of NSDL for providing the facility of E-voting to its Member electronically. All the members are hereby informed that:-

1. The business as set forth in the Notice of 5th AGM shall be transacted through electronic means.
2. The cut-off date for determining the eligibility of members to exercise their rights to vote through electronic means shall be Tuesday, 18th September, 2018 at 5:00 p.m. whose name is recorded in the Register of Members and Share Transfer Book maintained by the Company. The members whose name is recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the Company shall be entitled to avail the facility of E-voting at the General Meeting.
3. E-voting is optional and the portal will remain open from 22nd September, 2018 (10:00 a.m.) to 24th September, 2018 (5:00 pm). The e-voting facility shall be disabled by NSDL thereafter and voting through Poll paper shall be beyond said time.
4. Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the notice of 5th AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, 18th September, 2018 at 5:00 p.m., may obtain the login ID and password by sending a request on or after the cut-off date to the Members, who have not cast their vote electronically.
5. The facility for voting through Poll paper shall be made available to the members attending the AGM. The members who have cast their vote through E-voting facility shall not be entitled to cast their votes again.

**TATA
MUTUAL
FUND**

NOTICE CUM ADDENDUM

This addendum sets out the changes to be done in the Scheme Information Documents (SID), Memorandums (KIM) of Tata Hybrid Equity Fund, Tata Large & Mid Cap Fund and Tata Opportunities Scheme and Statement of Additional Information (SAI) of Tata Mutual Fund for the purpose of taking record of the Shareholders at the Annual General Meeting.

03 September, 2018

Senior Fund Manager at Tata Asset Management Ltd

claries with statutory duties in